

## ONE LINER

Q.1. रक्त की उभय - प्रतिरोध क्रिया (बफर क्रिया) किसकी उपस्थिति के कारण होती है-  $\text{HCO}_3^-$  और  $\text{H}_2\text{CO}_3$

Q.2. प्रायोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था- यूरिया

Q.3. सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है- पराश्रव्य तरंगे

Q.4. 'सिस्टमा नेचुरे' पुस्तक किसने लिखी- लिनियस

Q.5. कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए- ग्लूकोस

Q.6. विश्व की सबसे लम्बी नदी कौन सी है- नील

Q.7. भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन-सी है- बुलर झील

Q.8. जायरे का पुराना नाम था- काँगो

Q.9. कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है- सोडियम हाइड्रॉक्साइड

Q.10. धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को.....कहते है- जूल नियम

Q.11. संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को .....कहते है- स्थगन

Q.12. डियोडेनम का एक भाग है- छोटी आँत

Q.13. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च.....में स्थित है- मुंबई

Q.14. नागालैंड का राष्ट्रीय भाषा क्या है- अग्रेजी

Q.15. ....ने एटम बम का आविष्कार किया था- जे. रॉबर्ट ओप्पनहैमर

Q.16. पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस में .....शामिल होता है- HCL

Q.17. लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3-डी इमेजिंग प्रक्रिया.....कहलाती है- होलोग्राफी

Q.18. किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है- प्लूटो

- Q.19. रक्त में सफेद रक्त कण..... - शरीर को संक्रमण से बचाते है
- Q.20. 'अमुक्तमाल्यदा' किसकी रचना है- कृष्णदेव राय
- Q.21. अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है- सल्फ्यूरिक अम्ल
- Q.22. स्वतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था- आर.के. षण्मुखम चेट्टी
- Q.23. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है- ग्वालियर में
- Q.24. जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो वे किसमे परिवर्तित हो जाती है- नीस
- Q.25. सोना महत्पूर्ण धातु क्यों है- आभूषण के कारण
- Q.26. निम्नलिखित में कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान/अरण्य राजस्थान में नहीं है- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
- Q.27. दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी- सुल्ताना रजिया
- Q.28. उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते है जिसमें कृषि-श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है- प्रच्छन्न बेरोजगारी
- Q.29. 'हिंदू पेट्रियाट' का सम्पादक निम्नलिखित में से कौन था- हरीश चन्द्र मुखर्जी
- Q.30. लाल चने से कौन-सा एन्जाइम निम्नलिखित में से कौन था- युरिएज
- Q.31. वह गुण कौन 'सर्वोदय' और 'भूदान' आंदोलन के साथ संबंधित थे- विनोबा भावे
- Q.32. किस दिन को 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाया जाता है- 2 अक्टूबर
- Q.33. 'पिट्स इंडिया एक्ट' के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया - नियंत्रण बोर्ड
- Q.34. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है- 8 सितम्बर
- Q.35. दाहक सोड़ा कैसा होता है- प्रस्वेदी
- Q.36. हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है - उत्तर प्रदेश
- Q.37. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया - नरेंद्र मोदी
- Q.38. टाटा संस किसके साथ एयर इंडिया का विलय करेगा - एयर एशिया
- Q.39. हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस 'बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' का पुरस्कार किसे मिला है - अटल टनल
- Q.40. 2. अप्रैल 2022 में असम के किस जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया - डिब्रूगढ़
- Q.41. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ( MoPNG) ने PMUY की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया - 01 मई

Q.42. हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल माक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है - **ब्राज़ील**

Q.43. हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए 'Open-For-All डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है - **ICICI बैंक**

Q.44. हाल ही में किसे थलसेना का नए सह प्रमुख नियुक्त किया गया है - **लेफ्टिनेंट जनरल जनरल बग्गावल्ली सोमशेख**

Q.45. हाल ही में कौनसा बैंक एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है - **यूनियन बैंक**



+91 7007734525, [Info@study91.co.in](mailto:Info@study91.co.in), <https://study91.co.in/>